श्याम की अदालत में । by Sandeep Bansal

हर एक हारे का है सहारा सबके लिए सांवरे का है द्वारा जिसने भी मुश्किल में मन से पुकारा उसकी मदद को मेरा श्याम प्यारा लीले पे होक सवार आता है

श्याम की अदालत में अर्ज़ी जो लगाता है हारी हुई बाज़ी भी वो प्राणी जीत जाता है

जो आ गया सांवरे की शरण में हारा कभी ना वो जीवन के रण में पग पग पे वो जीत ही पाता है श्याम की अदालत में अर्ज़ी जो लगाता है हारी हुई बाज़ी भी वो प्राणी जीत जाता है

है जिसके संग तीन बाणो का धारी उसका बिगाड़ेगा क्या दुनिया सारी जिसका मेरे श्याम से नाता है श्याम की अदालत में अर्ज़ी जो लगाता है हारी हुई बाज़ी भी वो प्राणी जीत जाता है

हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है दुनिया यहाँ सर झुकाये खड़ी है संदीप सबको ये समझाता है श्याम की अदालत में अर्ज़ी जो लगाता है हारी हुई बाज़ी भी वो प्राणी जीत जाता है